

- ii) उपनियम 3 में इन शब्दों – “नियम (3) के उपनियम (1) के तहत घोषणाप्राप्त होने की तारीख के तीस दिनों के अंदर” के स्थान पर “मई 2020 के पहले दिन (1.05.2020) अथवा उससे पहले” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 में इन शब्दों –“इसके जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर” के स्थान पर “जून 2020 के 30वें दिन अथवा उससे पहले ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 267/50/2020-सी एक्स-8]

गौरव सिंह, उप-सचिव

नोट – मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 21 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2020

**No. 01/2020-Central Excise (N.T.)**

**G.S.R. 295(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 132 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019, namely:-

1. (i) These rules may be called the Sabka Vishwas (legacy Dispute Resolution) Scheme (Amendment) Rules, 2020.  
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
2. In the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6,-
  - (i) In sub-rule (2) for the words “within a period of sixty days from the date of receipt of the declaration”, the words, figures and letters “on or before the 31<sup>st</sup> day of May, 2020” shall be substituted;
  - (ii) In sub-rule (3), for the words “within thirty days of the date of receipt of the declaration under sub-rule (1) of rule 3”, the words, figures and letters “on or before the 1<sup>st</sup> day of May, 2020” shall be substituted;
3. In the said rules, in rule 7, for the words “within a period of thirty days from the date of its issue”, the words, figures and letters “on or before the 30<sup>th</sup> day of June, 2020” shall be substituted.

[F. No. 267/50/2020-CX-8]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note:**-The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 588(E), dated the 21<sup>st</sup> August, 2019.